

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, शक्रवार, मार्च २९, १९६८/चैत्र ९, १८९०
No. 56] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1968/CHAITRA, 9, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(N.S. BRANCH)
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th March 1968

G.S.R. 630.—In pursuance of rule 9 of the Post Office Savings Bank Rules, 1965, the Central Government hereby notifies that, with effect from the 1st April, 1968 and until further orders, on the balance at credit of an account specified in column (1) of the table below, interest shall be allowed at the rate specified in the corresponding entries in column (2) of the said table:

TABLE

Account (1)	Rate of Interest per annum (2)
1. Single Account	3½ per cent.
2. Joint Account	3½ per cent.
3. Public Account	3½ per cent. on any balance not exceeding Rs. 50,000; and at 3 per cent. on the remainder of the balance.
4. Security Deposit Account	3 per cent.
5. Provident Fund Account	3½ per cent.
6. Any other Account	3 per cent.

A. R. SHIRALI, Jt. Secy.

[F. No. 7(2)-NS/68]

